



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 201-2022/Ext. | CHANDIGARH, MONDAY, NOVEMBER 14, 2022 (KARTIKA 23, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

प्रशासकीय सुधार विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 नवम्बर, 2022

**संख्या 7/31/2014-3ए0आर0.-** हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग अधिसूचना संख्या 7/31/2014-3ए.आर., दिनांक 15 फरवरी, 2016 की अनुसूची की क्रम संख्या 96 से 112 तथा दिनांक 2 मार्च, 2017 तथा 14 सितम्बर, 2017 द्वारा अधिसूचित क्रम संख्या 112क से 112झ और 112क से 112ज तथा उसके सामने प्रविष्टियों के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम के अधीन उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की निम्नलिखित सेवाएं, समय सीमा, जिसके भीतर ये नागरिकों को उपलब्ध करवाई जानी हैं, पदाभिहित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी अधिसूचित करते हैं, अर्थात् :-

### अनुसूची

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सेवा का नाम	दी गई समय सीमा	पदाभिहित अधिकारी	प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी	द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 (केन्द्रीय अधिनियम 1923 का 5) के अधीन बॉयलर पंजीकरण	22 दिन	बॉयलर के मुख्य निरीक्षक	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य, हरियाणा
2	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 (केन्द्रीय अधिनियम 1923 का 5) के अधीन बॉयलर पंजीकरण का निवकरण	15 दिन	बॉयलर के मुख्य निरीक्षक	अपर निदेशक (तकनीकी), उद्योग तथा वाणिज्य, हरियाणा	निदेशक / महानिदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य, हरियाणा
3	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 (केन्द्रीय अधिनियम 1923 का 5) के अधीन बॉयलर के परिवर्तन, हेरफेर, मुरम्मत के लिए अनुमोदन	10 दिन	बॉयलर के मुख्य निरीक्षक	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य, हरियाणा

4	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	लुब्रीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (संसाधन सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन संसाधन के लिए अनंतिम अनुज्ञप्ति	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य, हरियाणा	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य, हरियाणा
5	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	लुब्रीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (संसाधन सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन ट्रेडिंग के लिए अनंतिम अनुज्ञप्ति	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य, हरियाणा	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य, हरियाणा
6	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	लुब्रीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (संसाधन सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन संसाधन के लिए अनुज्ञप्ति	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य, हरियाणा	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य, हरियाणा
7	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	लुब्रीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (संसाधन सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन ट्रेडिंग के लिए अनुज्ञप्ति	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य, हरियाणा	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य, हरियाणा
8	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	लुब्रीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (संसाधन सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन संसाधन के लिए अनुज्ञप्ति का नवीकरण	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य, हरियाणा	प्रधान सचिव, उद्योग तथा वाणिज्य, हरियाणा
9	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	लुब्रीकेटिंग ऑयल तथा ग्रीसिंग (संसाधन सप्लाई तथा वितरण रेगुलेशन) आदेश, 1987 के अधीन ट्रेडिंग के लिए अनुज्ञप्ति का नवीकरण	20 दिन	अपर निदेशक	निदेशक, उद्योग और वाणिज्य, हरियाणा	प्रधान सचिव, उद्योग और वाणिज्य, हरियाणा
10	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन फर्म का पंजीकरण (1932 का केन्द्रीय अधिनियम 9)	07 दिन	ज़िला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसाईटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसाईटी	महारजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसाईटी
11	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का केन्द्रीय अधिनियम 9) के अधीन भागीदारों में परिवर्तन के लिए अनुमोदन	03 दिन	ज़िला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसाईटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसाईटी	महारजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसाईटी
12	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का केन्द्रीय अधिनियम 9) के अधीन पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए अनुमोदन	03 दिन	ज़िला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसाईटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसाईटी	महारजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसाईटी
13	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	हरियाणा सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का 1) के अधीन सोसाईटियों का रजिस्ट्रीकरण	15 दिन	ज़िला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसाईटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसाईटी	महारजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसाईटी

14	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	हरियाणा सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का 1) के अधीन सोसाईटियों के नाम का अनुमोदन	03 दिन	ज़िला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसाईटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसाईटी	महारजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसाईटी
15	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	हरियाणा सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का 1) के अधीन भासकीय निकाय के लिए अनुमोदन	15 दिन	ज़िला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसाईटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसाईटी	महारजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसाईटी
16	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	हरियाणा सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का 1) के अधीन सोसाईटी के नाम रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिए अनुमोदन	07 दिन	ज़िला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसाईटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसाईटी	महारजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसाईटी
17	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	हरियाणा सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का 1) के अधीन सोसाईटी की उपविधियों में संशोधन के लिए अनुमोदन	60 दिन	ज़िला रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसाईटी	राज्य रजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसाईटी	महारजिस्ट्रार, फर्म तथा सोसाईटी
18	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	विद्यमान सोसाईटी का रजिस्ट्रीकरण	15 दिन	ज़िला रजिस्ट्रार	राज्य रजिस्ट्रार	महारजिस्ट्रार
19	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	कॉलिजियम की योजना का अनुमोदन	15 दिन	ज़िला रजिस्ट्रार	राज्य रजिस्ट्रार	महारजिस्ट्रार
20	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	फर्म के नाम में परिवर्तन	07 दिन	ज़िला रजिस्ट्रार	राज्य रजिस्ट्रार	महारजिस्ट्रार
21	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	फर्म का विघटन	07 दिन	ज़िला रजिस्ट्रार	राज्य रजिस्ट्रार	महारजिस्ट्रार
22	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	हरियाणा सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम 1) की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन अनिवार्य वार्षिक विवरणियां दायर करना	30 दिन	ज़िला रजिस्ट्रार	राज्य रजिस्ट्रार	महारजिस्ट्रार
23	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	भासकीय निकाय/ सामान्य निकाय की बैठकों का प्रस्ताव	30 दिन	ज़िला रजिस्ट्रार	राज्य रजिस्ट्रार	महारजिस्ट्रार
24	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	हरियाणा सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम 1) की धारा 30 की उपधारा (3) के अधीन सूचना के लिए कॉलिजियम के चुने गये सदस्यों की सूची का प्रस्तुतिकरण	15 दिन	ज़िला रजिस्ट्रार	राज्य रजिस्ट्रार	महारजिस्ट्रार

25	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	हरियाणा सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के सदस्यों का नामांकन	30 दिन	ज़िला रजिस्ट्रार	राज्य रजिस्ट्रार	महारजिस्ट्रार
26	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	मितव्ययक का पंजीकरण	22 दिन	मुख्य निरीक्षक, बॉयलर, हरियाणा	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग
27	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	राज्य के भीतर बॉयलर का निरीक्षण पुस्तिका के ज्ञापन तथा पंजीकरण पुस्तिका के अन्तरण की अनुमति	10 दिन	मुख्य निरीक्षक, बॉयलर, हरियाणा	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग
28	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	राज्य के बाहर बॉयलर का निरीक्षण पुस्तिका के ज्ञापन तथा पंजीकरण पुस्तिका के अन्तरण की अनुमति	10 दिन	मुख्य निरीक्षक, बॉयलर, हरियाणा	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग
29	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	बॉयलर निर्माता इकाई का प्रमाण-पत्र	15 दिन	मुख्य निरीक्षक, बॉयलर, हरियाणा	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग
30	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	बॉयलर मरम्मतकर्ता का प्रमाण-पत्र	15 दिन	मुख्य निरीक्षक, बॉयलर, हरियाणा	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग
31	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	बॉयलर मरम्मतकर्ता के प्रमाण-पत्र का नवीकरण	07 दिन	मुख्य निरीक्षक, बॉयलर	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग
32	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	बॉयलर वेल्डर प्रमाण-पत्र	10 दिन	मुख्य निरीक्षक, बॉयलर	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग
33	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	बॉयलर वेल्डर प्रमाण-पत्र का नवीकरण	10 दिन	मुख्य निरीक्षक, बॉयलर	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग
34	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	बॉयलर संचालन अभियंता प्रमाण-पत्र	30 दिन	मुख्य निरीक्षक, बॉयलर	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग
35	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	बॉयलर परिचर प्रमाण-पत्र	30 दिन	मुख्य निरीक्षक, बॉयलर	अपर निदेशक, उद्योग	निदेशक, उद्योग
36	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	आईबीआर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के निर्माण के लिए अनुज्ञप्ति जारी करना	15 दिन	बॉयलर के मुख्य निरीक्षक, हरियाणा	अपर निदेशक (तकनीकी), उद्योग तथा वाणिज्य, हरियाणा	निदेशक / महानिदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य, हरियाणा
37	उद्योग तथा वाणिज्य विभाग	आईबीआर वेल्डिंग इलेक्ट्रोड के निर्माण के लिए अनुज्ञप्ति का नवीकरण	15 दिन	बॉयलर के मुख्य निरीक्षक, हरियाणा	अपर निदेशक (तकनीकी), उद्योग तथा वाणिज्य, हरियाणा	निदेशक / महानिदेशक, उद्योग तथा वाणिज्य, हरियाणा

संजीव कौशल,  
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT**

**Notification**

The 14th November, 2022

**No. 7/31/2014-3AR.**— In exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014) and in supersession of serial numbers 96 to 112 and notification dated 2nd March 2017 and 14th September, 2017 and serial numbers 112A to 112I and 112A to 112J and entries thereagainst of the Schedule to the Haryana Government, Administrative Reforms Department, notification No.7/31/2014-3AR, dated the 15th February, 2016, the Governor of Haryana, on the recommendation of the Commission hereby notifies the following services, the time limit within which these are to be provided to citizens, the Designated Officers, First Grievances Redressal Authority and Second Grievances Redressal Authority of Information, Industries and Commerce Department under the said Act as specified in the Schedule given below, namely :—

**Schedule**

Serial Number	Name of the Department	Name of service	Given time limit	Designated officer	First Grievances Redressal Authority	Second Grievances Redressal Authority
1	2	3	4	5	6	7
1	Industries and Commerce Department	Boiler Registration under the Indian Boiler Act, 1923 (Central Act 5 of 1923)	22 days	Chief Inspector of Boilers	Additional Director Industries	Director, Industries and Commerce, Haryana
2	Industries and Commerce Department	Renewal of Boiler Registration under the Indian Boiler Act 1923 (Central Act 5 of 1923)	15 days	Chief Inspector of Boilers	Additional Director (Tech.), Industries and Commerce, Haryana	Director/Director General Industries and Commerce, Haryana
3	Industries and Commerce Department	Approval for modification alteration, repair of boiler under Indian Boiler Act, 1923 (Central Act 5 of 1923)	10 days	Chief Inspector of Boilers	Additional Director, Industries	Director Industries and Commerce, Haryana
4	Industries and Commerce Department	Provisional License for processing under Lubricating Oils and Greases (Processing Supply and Distribution Regulation) Order, 1987.	20 days	Additional Director	Director Industries and Commerce, Haryana	Principal Secretary, Industries and Commerce
5	Industries and Commerce Department	Provisional License for Trading under Lubricating Oils and Greases (Processing Supply and Distribution Regulation) Order, 1987.	20 days	Additional Director	Director Industries and Commerce	Principal Secretary, Industries and Commerce
6	Industries and Commerce Department	License for processing under Lubricating Oils and Greases (Processing Supply and Distribution Regulation) Order, 1987	20 days	Additional Director	Director Industries and Commerce	Principal Secretary, Industries and Commerce
7	Industries and Commerce Department	License for Trading under Lubricating Oils and Greases (Processing Supply and Distribution Regulation) Order, 1987.	20 days	Additional Director	Director Industries and Commerce, Haryana	Principal Secretary, Industries and Commerce

8	Industries and Commerce Department	Renewal of License for processing under Lubrication Oils and Greases (Processing Supply and Distribution Regulation) Order 1987	20 days	Additional Director	Director Industries and Commerce, Haryana	Principal Secretary, Industries and Commerce
9	Industries and Commerce Department	Renewal of License for Trading under Lubrication Oils and Greases (Processing Supply and Distribution Order, 1987	20 days	Additional Director	Director Industries and Commerce, Haryana	Principal Secretary, Industries and Commerce
10	Industries and Commerce Department	Registration of Firms under Indian Partnership Act, 1932 (Central Act 9 of 1932).	07 days	District Registrar, Firms and Societies	State Registrar, Firms and Societies	Registrar General, Firms and Societies
11	Industries and Commerce Department	Approval for change in partners under Indian Partnership Act, 1932 (Central Act 9 of 1932).	03 days	District Registrar, Firms and Societies	State Registrar, Firms and Societies	Registrar General, Firms and Societies
12	Industries and Commerce Department	Approval for change of Registered Office under Indian Partnership Act, 1932 (Central Act 9 of 1932).	03 days	District Registrar, Firms and Societies	State Registrar, Firms and Societies	Registrar General, Firms and Societies
13	Industries and Commerce Department	Registration of Societies under the Haryana Registration and Regulations of Societies Act, 2012 (1 of 2012)	15 days	District Registrar, Firms and Societies	State Registrar, Firms and Societies	Registrar General, Firms and Societies
14	Industries and Commerce Department	Name Approval of Societies under the Haryana Registration and Regulations of Societies Act, 2012 (1 of 2012)	03 days	District Registrar, Firms and Societies	State Registrar, Firms and Societies	Registrar General, Firms and Societies
15	Industries and Commerce Department	Approval of Governing body under the Haryana Registration and Regulations of Societies Act, 2012 (1 of 2012)	15 days	District Registrar, Firms and Societies	State Registrar, Firms and Societies	Registrar General, Firms and Societies
16	Industries and Commerce Department	Approval for change in name/Registered office of society under the Haryana Registration and Regulations of Societies Act, 2012 (1 of 2012)	07 days	District Registrar, Firms and Societies	State Registrar, Firms and Societies	Registrar General, Firms and Societies
17	Industries and Commerce Department	Approval for amendments in bye-laws of society under the Haryana Registration and Regulations of Societies Act, 2012 (1 of 2012)	60 days	District Registrar, Firms and Societies	State Registrar, Firms and Societies	Registrar General, Firms and Societies
18	Industries and Commerce Department	Registration for an existing Society	15 days	District Registrar	State Registrar	Registrar General
19	Industries and Commerce Department	Approval of scheme of Collegium	15 days	District Registrar	State Registrar	Registrar General

20	Industries and Commerce Department	Change in name of the Firm	07 days	District Registrar	State Registrar	Registrar General
21	Industries and Commerce Department	Dissolution of Firm	07 days	District Registrar	State Registrar	Registrar General
22	Industries and Commerce Department	Filling of mandatory annual returns u/s 50(1) of the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 (Act 1 of 2012)	30 days	District Registrar	State Registrar	Registrar General
23	Industries and Commerce Department	Resolution of Governing Body/ General Body meetings	30 days	District Registrar	State Registrar	Registrar General
24	Industries and Commerce Department	Submission of list of elected Collegium members for information u/s 30(3) of the Haryana Registration and Regulation of Societies Act, 2012 (Act 1 of 2012)	15 days	District Registrar	State Registrar	Registrar General
25	Industries and Commerce Department	Enrolment of members of Society registered under the Haryana registration and Regulation of Societies Act, 2012 (Act 1 of 2012)	30 days	District Registrar	State Registrar	Registrar General
26	Industries and Commerce Department	Registration of Economizer	22 days	Chief Inspector of Boilers, Haryana	Additional Director, Industries	Director, Industries
27	Industries and Commerce Department	Permission for Transfer Memorandum of Inspection Book and Registration Book of boiler within State	10 days	Chief Inspector of Boilers, Haryana	Additional Director, Industries	Director, Industries
28	Industries and Commerce Department	Permission for transfer of Memorandum of Inspection Book and Registration Book of boiler outside State	10 days	Chief Inspector of Boilers, Haryana	Additional Director, Industries	Director, Industries
29	Industries and Commerce Department	Certificate of Boiler Manufacturer unit	15 days	Chief Inspector of Boilers, Haryana	Additional Director, Industries	Director, Industries
30	Industries and Commerce Department	Certificate of Boiler Repairer	15 days	Chief Inspector of Boilers, Haryana	Additional Director, Industries	Director, Industries
31	Industries and Commerce Department	Renewal of Certificate of Boiler Repairer	7 days	Chief Inspector of Boilers, Haryana	Additional Director Industries	Director Industries
32	Industries and Commerce Department	Certificate of Boiler Welder	10 days	Chief Inspector of Boilers, Haryana	Additional Director, Industries	Director, Industries
33	Industries and Commerce Department	Renewal of Welder Certificate	10 days	Chief Inspector of Boilers, Haryana	Additional Director, Industries	Director, Industries
34	Industries and Commerce Department	Boiler Operation Engineer (BOE) Certificate	30 days	Chief Inspector of Boilers, Haryana	Additional Director, Industries	Director, Industries

35	Industries and Commerce Department	Boiler Attendant Certificate	30 days	Chief Inspector of Boilers, Haryana	Additional Director, Industries	Director, Industries
36	Industries and Commerce Department	Issuance of License for manufacturing of IBR welding electrodes	15 days	Chief Inspector of Boilers, Haryana	Additional Director (Tech.), Industries and Commerce, Haryana	Director/Director General, Industries and Commerce, Haryana
37	Industries and Commerce Department	Renewal of License for manufacturing of IBR welding electrodes	15 days	Chief Inspector of Boilers, Haryana	Additional Director (Tech.), Industries and Commerce, Haryana	Director/Director General, Industries and Commerce, Haryana

SANJEEV KAUSHAL,  
Chief Secretary to Government, Haryana.